

Printed from

**नवभारत टाइम्स**

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

**बोडाकी के पास बनेगा मल्टी मॉडल फ्रेट रेलवे लॉजिस्टिक पार्क**

15 Jan 2011, 0400 hrs IST

एक संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा

दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बोडाकी के नजदीक मल्टी मॉडल फ्रेट रेलवे लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अथॉरिटी का प्लानिंग विभाग बोडाकी के पास 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करेगा। पहले फेस में 5 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्लानिंग विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इन गांवों के नाम प्लानिंग विभाग के जीएम ने अथॉरिटी के लैंड विभाग को भेज दिए हैं। अब लैंड विभाग गांवों की लिस्ट मिल जाने के बाद गांवों में जाकर सर्वे करना शुरू कर देगा।

गौरतलब है कि दादरी में दिल्ली-मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह दादरी के पास से शुरू होकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए मुंबई बंदरगाह तक बनाया जाएगा। इस रेलवे ट्रैक पर डबल डेकर मालगाडियां चलाई जाएंगी। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि बोडाकी के पास रेलवे जंक्शन और ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। बोडाकी के आसपास के करीब 12 गांवों की जमीन पर मल्टी मॉडल फ्रेट रेलवे लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। यहां रेल और रोड ट्रांसपोर्ट लिंक होगा व कस्टम क्लियरेंस सुविधा होगी। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम की भी सुविधा होगी। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि पहले चरण में चिटहरा, कटहरा, दादरी, पल्ला व पाली गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जुनपत, कटहरा, पल्ला, पाली, बोडाकी, थापखेडा व हजरतपुर गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग ने इन गांवों की लिस्ट तैयार कर लैंड विभाग को भेज दी है। लैंड विभाग इन गांवों में जाकर सर्वे करेगा और इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

[इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।](#)

[इस आर्टिकल को ट्वीट करें।](#)

[देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।](#)

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2011 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768